

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021 — आषाढ़ 29, शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-143/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/129

रायपुर, दिनांक 30 जून 2021

प्रियंका यादव, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत बगीचा, जिला-जशपुर, (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 30 जून, 2021.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन दिनांक 10 जून 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत बगीचा, जिला जशपुर के दिसम्बर -2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी प्रियंका यादव भी सम्मिलित थी. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत बगीचा, जिला जशपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी प्रियंका यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी प्रियंका यादव को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 26-6-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रही तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरहित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 22-1-2021 को तामील की गई.

4. अभ्यर्थी प्रियंका यादव द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब मय निवृत्त लेखा प्रस्तुति की पावती प्रस्तुत किया गया है जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा प्राप्ति का दिनांक 31-01-2020 अंकित है, जवाब में लेख किया गया है कि उन्हें निर्वाचन व्यय का लेखा समय सीमा पर जमा का अंतिम सूचना 25-11-2020 को प्राप्त हुआ, फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 27-1-2020 को व्यय लेखा पत्रक कोषालय अधिकारी बगीचा से तैयार कराने के पश्चात् कार्यालय जिला निर्वाचन शाखा जशपुर में जमा किया गया है।
5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जशपुर द्वारा दिनांक 10 जून 2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत बगीचा जिला जशपुर के पार्षद पद की अभ्यर्थी प्रियंका यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः करना था।
6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), जशपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत बगीचा जिला जशपुर के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में पार्षद पद की अभ्यर्थी प्रियंका यादव अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया गया। यद्यपि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा तत्संबंध में जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया तथापि निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफलता का कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी प्रियंका यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी प्रियंका यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरहित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।
7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 30 जून, 2021 को जारी किया गया।

हस्ता./-

(ठाकुर राम सिंह)

राज्य निर्वाचन आयुक्त.